



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

10 भाद्र 1939 (श10)  
(सं0 पटना 787) पटना, शुक्रवार, 1 सितम्बर 2017

---

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

23 अगस्त 2017

सं० वि०सं०वि०-19/2017-7381/ वि०सं०—“बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1981-82, 1986-87, 1989-90, 1993-94 एवं 1995-96) (संख्या-2) विधेयक, 2017”, जो बिहार विधान सभा में दिनांक 23 अगस्त, 2017 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,  
राम श्रेष्ठ राय,  
सचिव।

## बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1981-82, 1986-87, 1989-90, 1993-94 एवं 1995-96) (संख्या-2)

## विधेयक, 2017

[वि०स०वि०-19/2017]

बिहार राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों का वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 1982, 1987, 1990, 1994 एवं 1996 को समाप्त होने वाले वर्षों की सेवा के लिए, शोधन और विनियोग नियमित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम।—यह अधिनियम बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1981-82, 1986-87, 1989-90, 1993-94 एवं 1995-96) (संख्या-2) विधेयक, 2017 कहा जा सकेगा।

2. वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 1982, 1987, 1990, 1994 एवं 1996 को समाप्त होने वाले वर्षों के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से क्रमशः 33552846, 656260350, 904045800, 326520229 एवं 667294793 रुपये की निकासी। बिहार राज्य की संचित निधि से अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित राशि से अनधिक राशि, जो कुल मिलाकर रू० 2587674018/- (दो अरब अष्टावन करोड़ छिहत्तर लाख चौहत्तर हजार अठारह) हैं, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में 31 मार्च 1982, 1987, 1990, 1994 एवं 1996 को समाप्त होने वाले वर्षों के दौरान आने वाले अनेक भारों, जो उस वर्ष की सेवाओं के लिए अनुदत्त राशियों में अधिक थे, की पूर्ति के लिए शोधित की जा सकेगी और प्रयोग में लायी जा सकेगी।

3. विनियोग।—इस अधिनियम के द्वारा जिन राशियों को बिहार राज्य की संचित निधि से शोधित और प्रयुक्त करने का प्राधिकार दिया गया है, उन्हें वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 1982, 1987, 1990, 1994 एवं 1996 को समाप्त होने वाले वर्षों के संबंध में उक्त अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजन के निमित्त विनियुक्त किया गया समझा जायेगा।

**अनुसूची**  
(देखें धाराएं 2 एवं 3)

वित्तीय वर्ष 1981-82				अधिकाई व्यय की रकम (रुपये में)		
क्र० सं०	अनुदान/ विनियोग संख्या	सेवाएँ और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है।	राजस्व/ पूँजी	बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	13	शिक्षा एवं कला और संस्कृति	राजस्व	<b>33552846</b>	—	<b>33552846</b>
			कुल	<b>33552846</b>	—	<b>33552846</b>

**अनुसूची**  
(देखें धाराएं 2 एवं 3)

वित्तीय वर्ष 1986-87				अधिकाई व्यय की रकम (रुपये में)		
क्रम० सं०	अनुदान / विनियोग संख्या	सेवाएँ और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है।	राजस्व / पूँजी	बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	13	शिक्षा, कला एवं संस्कृति	राजस्व	<b>656260350</b>	—	<b>656260350</b>
			कुल	<b>656260350</b>	—	<b>656260350</b>

अनुसूची  
(देखें धाराएं 2 एवं 3)

वित्तीय वर्ष 1989-90				अधिकाई व्यय की रकम (रूपये में)		
क्र० सं०	अनुदान/ विनियोग संख्या	सेवाएँ और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है।	राजस्व/ पूँजी	बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	25	शिक्षा, खेल और युवा सेवाएँ तथा कला और संस्कृति	राजस्व	<b>904045800</b>	—	<b>904045800</b>
			कुल	<b>904045800</b>	—	<b>904045800</b>

अनुसूची  
(देखें धाराएं 2 एवं 3)

वित्तीय वर्ष 1993-94				अधिकाई व्यय की रकम (रूपये में)		
क्र० सं०	अनुदान/ विनियोग संख्या	सेवाएँ और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है।	राजस्व/ पूँजी	बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	25	शिक्षा, खेल और युवा सेवाएँ तथा कला और संस्कृति	राजस्व	<b>326520229</b>	—	<b>326520229</b>
			कुल	<b>326520229</b>	—	<b>326520229</b>

अनुसूची  
(देखें धाराएं 2 एवं 3)

वित्तीय वर्ष 1995-96				अधिकाई व्यय की रकम (रूपये में)		
क्र० सं०	अनुदान/ विनियोग संख्या	सेवाएँ और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है।	राजस्व/ पूँजी	बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	25	शिक्षा, खेल और युवा सेवाएँ तथा कला और संस्कृति	राजस्व	<b>667294793</b>	—	<b>667294793</b>
			कुल	<b>667294793</b>	—	<b>667294793</b>

---

**उद्देश्य एवं हेतु**

राज्य की संचित निधि से कोई राशि 'भारतीय संविधान' के अनुच्छेद 204 के अधीन बनी विधि के अनुसार ही विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं। वित्तीय वर्ष 1981-82, 1986-87, 1989-90, 1993-94 एवं 1995-96 में, बिहार राज्य विधान मंडल से स्वीकृत राशि से, अपरिहार्य कारणों से, किए गए अधिकाई व्यय को लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन संख्या 617, 618, 619, 620 एवं 621 के आलोक में विनियमित करने की आवश्यकता है।

वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 1982, 1987, 1990, 1994 एवं 1996 को समाप्त होने वाले वर्षों के दौरान लोक लेखा समिति द्वारा विनियमन हेतु अनुशंसित अधिकाई व्यय के लिए क्रमशः 33552846, 656260350, 904045800, 326520229 एवं 667294793 रुपये अर्थात् ₹0 2587674018/- (दो अरब अष्टावन करोड़ छिहत्तर लाख चौहत्तर हजार अठारह) की राशि का शोधन और विनियोग बिहार राज्य विधान मंडल से प्राधिकृत कराया जाना ही इस विधेयक का मुख्य अभीष्ट है।

**(सुशील कुमार मोदी)**

भार-साधक सदस्य ।

---

पटना,  
दिनांक 23.08.2017

सचिव,  
बिहार विधान सभा।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,  
बिहार गजट (असाधारण) 787+571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>